

IndiaMART InterMESH Ltd.

Advant Navis Business Park, Plot no.7, 7th Floor, Sector - 142, Noida, UP Call Us: +91 - 9696969696 E: customercare@indiamart.com Website: www.indiamart.com

Date: August 01, 2019

To

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai - 400 051

Symbol: INDIAMART

BSE Limited

Listing Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

Symbol: 542726

Intimation of Publication of Audited Consolidated Financial Results for the quarter Subject:

ended 30 June 2019

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published Audited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

Please find enclosed a copy of the newspaper publications, published in the following newspapers on August 01, 2019:

• Mint (English Language National Daily Newspaper - All India) and

Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper - Delhi).

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For Indiamart Intermesh Limited

(Manoj Bhargava)

Sr. Vice President (Legal & Secretarial), Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.





TENDER NOTICE FOR Appointment of Consultant For Preparation of Blueprint For NTC Mills Interested parties may visit NTCL's

website - <u>www.ntcltd.org</u> under TENDERS or https://eprocure.gov.in/cppp/ for detailed tender document, uploaded on 26.07.2019. Last date of tender submission is 19.08.2019 upto 5:00 P.M. Tenders will be opened on 20.08.2019 AT 11:00 A.M. Pre-bid meeting will be held at 11.00 A.M. on 06.08.2019 at National Textile Corporation Limited, Core IV, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi – 110003.

Addendum / Corrigendum, if any, to the tender document will be published only on NTCL website and CPPP Portal. Chief General Manager (Finance/MIS)

Orchies

The most special way to say you care ARCHIES LIMITED Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050. CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.co Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650.

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of ARCHIES LIMITED ("Company"), will be held on Saturday, 10th August, 2019 at 12:10 P.M. at the corporate office, C-113, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028, inter alia, to consider and approve the un-audited financial results of the Company for the quarter and three months ended

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e www.archiesonline.com and on the website of stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com

DILIP SETH Director (Finance) &CFO

MUNJAL **SHOWA**

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934

Registered Office & Works: Plot No. 9-11, Maruti Industrial Area

Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana) Tel.:+91-124-4783000 | Fax:+91-124-2341359

Email: pgupta@munjalshowa.net | Website: http://www.munjalshowa.net

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019

	(₹ in Lakhs, except per equity share dat					
S.		3 Months Ended	Previous Year Ended	3 Months Ended		
No.	Particulars	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018		
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)		
1.	Total Income from operations	38,796.74	166,929.45	44,239.42		
2.	Net Profit for the period before tax and exceptional items	2,318.84	8,554.30	2,391.14		
3.	Net Profit for the period before tax and after exceptional items	2,318.84	8,554.30	2,391.14		
4.	Net Profit for the period after tax and after exceptional items	1,572.91	6,259.50	1,735.64		
5.	Total comprehensive income for the period (after tax)	1,572.91	6,270.27	1,735.64		
6.	Equity Share Capital	799.93	799.93	799.93		
7.	Earnings Per Share (after extraordinary item/s) (of Rs. 2/- each)					
	Basic: (In rupees)	3.93	15.65	4.34		

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.munjalshowa.net.

For and on behalf of the Board

(Yogesh Chander Munjal) **CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR DIN 00003491**

15.65

4.34

3.93

Place : Gurugram Dated: July 31, 2019

Diluted: (In rupees)



(formerly HT Digital Ventures Limited)

CIN: L74999DL2017PLC322147 Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor), 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India Fax: +91 11 6656 1445 Tel: +91 11 6656 1608 Email: investor@digicontent.co.in Website: www.digicontent.co.in

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019

(INR in Lakhs except earnings per share data)						
Particulars	ars Three Months Ended			Year Ended		
	30.06.2019 Un-audited	31.03.2019 Un-audited	30.06.2018 Un-audited	31.03.2019 Audited*		
Total Income from Operations	6,296	6,634	6,419	26,797		
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(975)	(795)	(548)	(1,653)		
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(975)	(795)	(548)	(1,653)		
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(924)	(566)	(390)	(1,177)		
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	(917)	(558)	(382)	(1,145)		
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)	1,164	1,164	1,164	1,164		
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the audited balance sheet				5,325		
Earnings/(Loss) per share from continuing operations (of INR 2/- each)*	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised			
(a) Basic	(1.59)	(0.97)	(0.67)	(2.02)		
(b) Diluted	(1.59)	(0.97)	(0.67)	(2.02)		

*Refer Note -1

Pursuant to a Scheme of Arrangement (Demerger) between Digicontent Limited (the Company) and HT Media Limited (HTML) and their respective creditors and shareholders (Scheme), the Entertainment & Digital Innovation Business of HTML along with its related assets and liabilities, and the related strategic investment in HT Digital Streams Limited (HTDSL), has been transferred to the Company upon sanction of Scheme by the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench vide order dated 7 March, 2019 (certified copy received by the Company on 27 March, 2019) ("the order"). Certified copy of the order was filed with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana on April 05, 2019. Accordingly, the Scheme has been given effect from March 31, 2018 (closing business hours) i.e. Appointed Date.

Pursuant to aforesaid Scheme, HTML has transferred its entire stake in HTDSL (i.e. 57.17%) to the Company, by which HTDSL has become a wholly-owned subsidiary of the Company. The Consolidated results for year ended March 31, 2019 were prepared for filing information memorandum

The Company issued and allotted its 5,81,87,078 equity shares of face value of Rs. 2/- each on 12th April, 2019 to the eligible shareholders of HTML. The aforesaid equity shares were admitted for trading and listed on the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited on 18th June, 2019. These equity shares have also been considered for the purpose of calculation of earnings per share.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange rebsites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.digicontent.co.in".

The above un-audited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2019 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on July 31, 2019. The Statutory Auditors have conducted "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and have issued an unmodified review opinion.

The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to tii

Additional Information on Standalone financial results is as follows:-

				(INR in Lakns)
Particulars	1	Year Ended		
	30.06.2019 Un-audited	31.03.2019 Un-audited	30.06.2018 Un-audited	31.03.2019 Audited
Revenue from Operations	377	393	463	2,004
Profit/(Loss) Before Tax	(284)	(270)	(185)	(487)
Profit/(Loss) After Tax	(416)	(200)	(137)	(360)

(421)

(204)(141)For and on behalf of the Board of Directors

New Delhi July 31, 2019

Total Comprehensive Income/(Loss)

Priyavrat Bhartia



CIN: U74899DL1999PLC101534

Regd. Office: 1st Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subash Marg, Delhi -110002, India Phone: (+91) (11) 3027 2100, Fax: (+91) (11) 43509807, E-mail: cs@indiamart.com, Website: www.indiamart.com Extract of Statement of Audited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2019 (INR Million except per share data)

		Qı	uarter ended		Year ended
	Particulars		March 31, 2019		March 31, 2019
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Income from operations	1,473	1,380	1,133	5,074
2	Net Profit / (Loss) for the period	462	337	(497)	539
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)				
3	. Net Profit / (Loss) for the period before tax	462	337	(497)	539
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
4	. Net Profit / (Loss) for the period after tax	324	282	(564)	201
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
5	. Total comprehensive income/(Loss) for the period	314	284	(567)	194
	[comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other				
	comprehensive income (after tax)]				
6	Equity Share Capital	288	286	247	286
7	Other equity as per previous year (excluding revaluation				1,313
	reserves, if any)				
8	. Basic and diluted earnings per share (for continuing and				
	discontinued operations) (In INR)				
	Basic (face value of INR 10/- each)	11.29	9.85	(26.51)	7.75
		(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	
	Diluted (face value of INR 10/- each)	11.09	9.79	(26.51)	7.61
L	·	(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	

. The above consolidated results for the quarter ended June 30, 2019 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 31,2019.

 The above information is an extract of the detailed format of quarterly audited consolidated financial results filed by the company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly audited standalone and consolidated financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.con and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com.

and www.nseniola.com) and also on Company's website at www.indiamart.com.

The Group has adopted Ind AS 116, effective annual reporting period beginning April 1, 2019 and applied the standard to its leases using modified retrospective approach, with the cumulative effect of initially applying the Standard, recognised on the date of initial application (April 1, 2019). Accordingly, the Group has not restated comparative information, instead, the cumulative effect of initially applying this standard has resulted in recognising a right-of-use asset of INR 204 Million and a corresponding lease liability of INR 224 Million by adjusting retained earnings net of taxes of INR 16 Million [the impact of deferred tax created INR 9 Million] as at Ápril 1, 2019. In the profit and loss account for the current period, the nature of expenses in respect of operating leases has changed from lease rent (in other expenses) into depreciation cost against the right-to-use asset and finance cost against interest accrued on lease liability. The impact of application of Ind AS 116 on the Consolidated Financials Results of the quarter ended June 30, 2019 are as follow

The impact of application of the first the contentation intentation of the quarter ended can be experienced.					
	(Amounts in INR "Millions")				
Particulars	Quarter Ended				
Faiticulais	June 30, 2019				
Rent Expense is lower by	45				
Depreciation is higher by	(36)				
Finance Cost is higher by	(4)				
Profit Before tax is higher by	5				
The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter ended June 30, 201	9 are given below:-				

,			· (Am	ounts in INR "Millions")
		Year ended		
Particulars	June 30, 2019 Audited	March 31, 2019 Audited	June 30, 2018 Audited	March 31, 2019 Audited
Income from operations	1,443	1,351	1,115	4,973
Net Profit / (Loss) before tax	470	236	(487)	463
Net Profit / (Loss) after tax	332	179	(554)	126

5. Figures for the previous periods have been regrouped/reclassified to confirm to the classification of the current period. For and on behalf of the Board of Directors

IndiaMART InterMESH Limited Place: Noida Dinesh Chandra Agarwal Date : July 31, 2019 (Managing Director)

GUJARAT GAS LIMITED

(Formerly known as GSPC Distribution Networks Limited)

Registered Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector-5/C, Gandhinagar-382006, District: Gandhinagar, Gujarat. Tel: +91-79-26462980 Fax: + 91-79-26466249 Website: www.gujaratgas.com E-mail: rajeshwari.sharma@gujaratgas.com CIN: L40200GJ2012SGC069118




EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2019

	₹ in Crores							
Sr.	Particulars		Standalone		(d		
No.	T di tiodidi o	Quarte	Quarter ended Year en		Quarter ended		Year ended	
		30-06-2019	30-06-2018	31-03-2019	30-06-2019	30-06-2018	31-03-2019	
		Un-aı	udited	Audited	Un-aı	ıdited	Audited	
1	Total income from operations	2,693.30	1,871.94	8,073.76	2,693.37	1,872.00	8,074.04	
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items)	360.17	187.76	611.72	360.24	187.82	612.00	
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	360.17	187.76	593.85	360.24	187.82	594.13	
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	233.69	121.39	417.03	234.04	122.12	418.45	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	231.14	122.68	414.97	231.45	123.41	416.36	
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)			2,046.31			2,067.59	
8	Earnings Per Share in ₹ (Face Value of ₹ 2/- each)							
	(not annualised for quarter)							
	Basic (₹)	3.39	1.76	6.06	3.40	1.77	6.08	
	Diluted (₹)	3.39	1.76	6.06	3.40	1.77	6.08	
Na	toe	•	•	•				

- 1) The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read together with the Companies (Indian Accounting Standards -Ind AS) Rules issued thereafter and other accounting principles generally accepted in India. These financial results are presented in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time along with other relevant rules issued thereunder.
- 2) The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the same is available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on Company's website www.gujaratgas.com.
- 3) The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in meeting held on 30th July, 2019 at Gandhinagar, Gujarat.
- 4) Previous period's figures have been reclassified/regrouped/restated, wherever necessary.

Place: Gandhinagar Date: 30th July, 2019 For and on behalf of Board of Directors **Gujarat Gas Limited** Dr. J. N. Singh, IAS **CHAIRMAN**









• सरकार ने

कंपनियों को डाटा की

सुरक्षा के लिए डाटा

केंद्र बनाने को कहा

पहला डाटा केंद्र

• उत्तर प्रदेश राज्य में

स्थापित होने की पूरी

नोएडा, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश के नोएडा/ग्रेटर नॉएडा क्षेत्र

में डाटा सेंटर बनाने की योजना है। इस

अमेजन, टिवटर, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट

आदि के अधिकारियों के संपर्क में है

जिनमें से कुछ कंपनियां राज्य में डेटा

सेंटर खोलने की इच्छुक हैं। मेक इन

इंडिया के तहत पूरी योजना पर आगे

बढ़ने की कोशिश होगी। तकनीकी

विशेषज्ञता में साझेदारी को लेकर भी

बात चल रही है।

मामले में राज्य सरकार फेसबुक,

के लिए योजना

सोशल मीडिया में डाटा सुरक्षित रहेगा

नई दिल्ली **| पंकज कुमार पाण्डेय**

फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप फ्लिपकार्ट जैसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों की निजी जानकारी से छेडछाड और डाटा चोरी रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। संबंधित कंपनियों को कहा गया है कि वे डाटा की सरक्षा और गोपनीयता के लिए स्थानीय स्तर पर डाटा केंद्र और सर्वर का इंतजाम करें।

अधिकारियों के मुताबिक, इन कंपनियों के लोकल सर्वर और डाटा **2018** में हुई भारत में सबसे बड़ी डेटा चोरी **8,069** डाटा में सेंघ 2017 के कीन

है। उत्तरप्रदेश पहला राज्य हो सकता

बनाई है। मामले की संवेदनशीलता के

मुताबिक सभी तरह के पुख्ता इंतजामों

है जहां इस तरह का केंद्र स्थापित

होगा। राज्य ने हाल में डाटा नीति

को लेकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व संबंधित कंपनियों की

बातचीत चल रही है। योगी सरकार ने कंपनियों को **मनाया :** सूत्रों के मुताबिक, डाटा

लीक होने की चिंता से निजात दिलाने

डाटा केंद्र के फायदे

- निजी जानकारी किसी गैर जरूरी व्यक्ति या संस्था को नहीं मिलेगी
- डाटा केंद्र बनने से सोशल मीडिया
- प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रुकेगा
- ऐसा करने वाले आसानी से स्थानीय एजेंसियों की गिरफ्त में होंगे • डाटा चराने वाले भारतीय कानूनों के दायरे में भी लाए जा सकेंगे

के लिए केंद्र की सहमति के बाद योगी सरकार ने इन कंपनियों को राज्य के भीतर डाटा केंद्र स्थापित करने को मना लिया है। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद, राज्य सरकार ने हाल ही में डाटा सेंटर पॉलिसी भी बनाई है।

एजेंसियों को मिल सकेगी जानकारी

एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि उत्तरप्रदेश से शुरुआत होगी। सोशल मीडिया व ऑनलाइन कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने डाटा केंद्र खोलेंगी। जिनमें प्रदेश के सभी उपयोगकर्ताओं का डाटा रखा जाएगा। ये कंपनियां जरूरी होने पर संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगी। विदेशों में सर्वर और स्थानीय स्तर पर डाटा केंद्र नहीं होने से एजेंसियों को काफी माथापच्ची करनी पड़ती है।

अभी तक देश में कोई डेटा पॉलिसी नहीं है । यूपी में डेटा नीति बनना लोगों की डेटा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। यह पूरे देश में होना चाहिए । हमारे यहां कोई डेटा संरक्षण कानून नहीं है । भारत का सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट भी इस संबंध में खामोश है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 भी साइबर पर फोकस करती है डेटा पर नहीं। अगर यूपी ऐसा करता है तो यह एक नई पहल होगी। -पवन दुग्गल, डेटा एवं साइबर विशेषज्ञ

अधीर-मुलायम पहली, राहुल अखिलेश दूसरी पंक्ति में बैठेंगे

भाजपा की संपत्ति २२% बढ़ी

कांग्रेस की १५ फीसदी घटी

सीटों का आवंटन

नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

लोकसभा में सांसदों को सीटों का आवंटन कर दिया गया है। प्रथम पंक्ति की सीटों में सत्तापक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत नौ केंद्रीय मंत्री बैठेंगे।

वहीं विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, टीआर बालु पहली पंक्ति में रहेंगे। राहल गांधी, अखिलेश यादव, फारुख अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले जैसे नेता विपक्षी खेमे की दूसरी पंक्ति में नजर आएंगे।लोकसभा में सभी सांसदों को

नई दिल्ली | **एजेंसी**

देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी

भाजपा) की संपत्ति में वर्ष 2017-18

में 22.17 फीसदी का इजाफा हआ है।

जबिक दूसरी सबसे बडी राजनीतिक

फीसदी की कमी आई है।

सुनिश्चित कर दिया गया है। विपक्षी खेमे की आगे की पंक्ति की कुछ सीटों का नाम तय होना बाकी है।

लोकसभा सचिवालय की सूची के अनुसार, सत्तापक्ष की तरफ से पहली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ दूसरी सीट पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बैठेंगे। इसके बाद चार सीटों पर अमित शाह, नितिन गडकरी, सदानंद गौडा, नरेंद्र सिंह तोमर को जगह दी

दुसरे कॉलम की पहली पंक्ति की दो सीटों पर रविशंकर प्रसाद व रमेश पोखिरियाल निशंक और तीसरे कॉलम की पहली दो सीटों पर अजुर्न मुंडा व

मोटर वाहन सशोधन विधेयक पेश करते सड़क परिवहन व राजमार्ग मत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी हर जिले में कैंसर

राज्यों से पुरानी और खटारा बसें बाहर होंगी



नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को पेश करते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यो की परानी और खटारा बसों के स्थान पर निजी लग्जरी एसी बसें चलाई जाएंगी और इनका किराया भी 30 फीसदी तक सस्ता होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए डीएल बनवाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगा। साथ ही वाहनों का पंजीकरण आरटीओ के बजाए डीलर करेगा।

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हए कहा कि इस विधेयक से केंद्र सरकार को एक धेले का राजस्व नहीं मिलेगा और इसमें राज्य सरकारों के अधिकार

छीनने का प्रयास नहीं किया गया है। गडकरी ने कहा कि नेशनल ट्रांसपोर्ट नीति में राज्य सरकार की सहमति से निजी बस ऑपरेटर अंडरटेकिंग व्यवस्था के तहत बसें चला

बीएसएनएल सेवा

नई दिल्ली। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों

में बीएसएनएल की संचार सेवाओं के

प्रभावित होने का मामला बुधवार को

लोकसभा में उठाया गया। अल्मोड़ा-

पिथौरागढ के सांसद अजय टम्टा ने यह

मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके संसदीय

क्षेत्र के ज्यादातर इलाके दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां ज्यादातर संचार सेवाएं बीएसएनएल दे रहा है लेकिन अर्से से

उनके संचालन में दिक्कत आ रही है।

उठाते हुए उन्होंने कहा कि अल्मोडा-

पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में संचार

सेवाओं के प्रभावित होने से लोगों को

काफी दिक्कतें हो रही हैं। इससे गैस बक

कराना, बैंकों में लेन-देन आदि संभी

कार्य प्रभावित हो रहे हैं। (वि.सं.)

केवी में दाखिले को

कोटा बढाने की मांग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक सदस्य ने बुधवार को केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में बच्चों के दाखिले के लिए राज्यसभा सदस्यों का कोटा

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान राजद के अहमद अशफाक करीम ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान में

केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के लिए राज्यसभा सांसदों और लोकसभा

उन्होंने कहा कि दस के कोटे का

मतलब है कि एक सांसद, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो,

दस बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश

दिलाने की सिफारिश कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोकसभा सांसद का

हिंदू विवाह विच्छेद

कानून बनाया जाए

नई दिल्ली। संसद से तीन तलाक

विधेयक पारित होने के बाद अब हिंदू

महिलाओं के अधिकारों की बात होने

लगी है। राज्यसभा में बुधवार को भाजपा नेता ने हिंदू विवाह विच्छेद में

हिंदू महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण

और विवाह विच्छेद प्रक्रिया को सरल

भाजपा नेता सी.पी. ठाकुर ने

शुन्यकाल में उच्च सदन में कहा कि

हिंदू महिलाओं के विवाह विच्छेद की

प्रक्रिया 20 साल तक चलती है।

इतने लंबे समय में पुनर्विवाह की स्थिति

खत्म हो जाती है। ठाकुर ने कहा कि

सरकार को इस बारे में कानन

(वि.सं.)

बनाने की मांग उठाई।

लाना चाहिए।

क्षेत्र सीमित होता है।

सांसदों का कोटा 10-10 है।

बढ़ाने की मांग उठाई।

भाजपा सांसद ने शून्यकाल में मुद्दा

का मुद्दा उटाया

राज्यसभा में बुधवार को बोलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। • प्रेट्र

दंगों और नक्सली हमले से ज्यादा सडक हादसों में मौत

नितिन गड़करी ने कहा कि देश में हर साल लाखों मौतें सड़क हादसों में होती हैं और इन्हें रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं और हम उन्हीं का मॉडल अपनाने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 40 फीसदी हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर होते हैं और इसके लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से कदम भी उठाए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि लड़ाई–दंगों, नक्सली वारदात से ज्यादा लोग हमारे यहां सड़क हादसों में मर रहे हैं। करीब 1.5 लाख लोग हर साल हादसों का शिकार हो रहे हैं।

सकेंगे। इसमें निजी ऑपरेटर बस खरीदेंगे, ड्राइवर उनके होंगे लेकिन कंडक्टर राज्य सरकार का होगा। किराया भी राज्य सरकार तय करेगी।

इसके लिए लंदन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरटीओ में कामकाज पारदर्शी बनाने के लिए डीएल प्रक्रिया ऑनलाइन व सीसीटीवी कैमरें में होगी। डीएल प्रक्रिया को आधार से जोड़ेंगे, जिससे 30 लाख फर्जी डीएल स्वतः रद्द हो जांएगे। वाहनों का पंजीकरण डीलर करेंगे. हालांकि टैक्स की दरें राज्य तय करेंगे। देश भर में ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने के लिए 14 हजार करोड़ रुपये खर्च

मांग : गाजियाबाद या नोएडा में भी एम्स शाखा खोली जाए

नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

हरियाणा के झज्जर की भांति पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की शाखा खोलने की मांग राज्यसभा में उठाई गई है। उत्तर प्रदेश के सांसदों ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर या मेरठ में इस प्रकार की शाखा खोली जा सकती है जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों के लोगों को फायदा होगा।

भाजपा के सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो एम्स खोले गए हैं जो रायबरेली एवं गोरखपुर में हैं। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज

उसमें भी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में

- सांसद बोले, पश्चिमी यपी के 25 जिलों के लोगों को फायदा होगा • सांसद विजयपाल ने की केंद्र से
- मामले में कदम उटाने की मांग ऐसे में लोग एम्स दिल्ली का रुख करते

हैं लेकिन वहां नंबर आने में कई महीनों लग जाते हैं। चार-चार महीने से पहले ऑपरेशन के लिए बेड नहीं पाल ने कहा कि कुछ समय पर हरियाणा के झज्जर में एम्स की एक

शाखा खोली गई है जिसका फायदा आसपास के कई जिलों को मिल रहा है। इसी प्रकार की शाखा यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खोल दी जाए तो लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में

तरंत कदम उठाने की मांग की। हरनाथ सिंह यादव और कहकशां परवीन ने भी उनकी मांग का समर्थन किया

बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग : नई दिल्ली। राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य ने बुधवार को बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने वाले दमनकारी के नाम पर इस स्टेशन का नाम होना एक तरह से दमनकारी का महिमामंडन करने जैसा है।

उपचार केंद्र बने

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को कैंसर के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। सपा समेत कई दलों के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि देश के हर जिले में कैंसर की जांच व उपचार केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। उनका तर्क था कि कैंसर से पीड़ित गरीब तबके के लोगों को इलाज के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पडता है।

सदन में अल्पकालिक चर्चा के दौरान सपा के चौधरी सुखराम सिंह यादव, विशम्भर प्रसाद निषाद और चंद्रपाल सिंह यादव ने कैंसर रोगियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देशभर में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और मरीजों को सस्ता व सुलभ उपचार सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। (वि.सं.)

एडीआर की रिपोर्ट

- 2016-17 में भाजपा की घोषित संपत्ति 1213.13 करोड़ थी
- वर्ष 2017-18 में वृद्धि के साथ 1483 .35 करोड़ हो गई

पार्टी कांग्रेस की संपत्ति में 15.23 दोनों वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्तियों तथा कर्जों के चुनाव पर नजर रखने वाले संगठन विश्लेषण से संबंधित एडीआर की एसोसिएशन ऑफ रिफॉर्म्स (एडीआर) ने बुधवार को बताया कि वित्तीय वर्ष रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया 2016-17 के दौरान भाजपा की कुल है। रिपोर्ट में सात राजनीतिक पार्टियों घोषित संपत्ति 1213.13 करोड़ थी। जो जिनमें भाजपा और कांग्रेस के अलाव वर्ष 2017-18 में 22.27 प्रतिशत की एनसीपी, बसपा, भाकपा, माकपा और वृद्धि के साथ 1483.35 करोड़ हो गई। तृणमूल कांग्रेस शामिल है।

नदी जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल बनेगा

विधेयक पारित

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को जल्द सुलझाने के लिए स्थायी न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) बनाया जाएगा। इसकी अलग-अलग शाखाएं होंगी। विवादों का निपटारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर होगा। इससे संबंधित विधेयक बधवार को लोकसभा में पारित हो गया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक-2019 को सदन में चर्चा के लिए पेश किया। बाद में चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए 1956 में लाए गए मूल कानून में संशोधन किए गए हैं। इस विषय पर 2013 में विभिन्न

राज्यों से चर्चा नहीं की: कांग्रेस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि इस विधेयक को लाने से पहले राज्यों के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। मगर. सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है।

उसके बाद 2017 में संबंधित विधेयक लाया गया, जिसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया। मगर, 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया।

राज्यों से विचार-विमर्श किया गया था।

वर्तमान में नौ न्यायाधिकरण हैं : जल शक्ति मंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए नौ अलग-अलग

राजनीतिक तरीके से निकलेगा रास्ताः वरुण

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि राज्यों के बीच निदयों के जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवादों का समाधान न्यायिक तरीके से नहीं. बल्कि राजनीतिक तरीके से ही निकाला

न्यायाधिकरण हैं। मगर, इनमें मामलों को सलझाने के लिए लंबा वक्त लग रहा है। इनमें से चार न्यायाधिकरण को विभिन्न मामलों में फैसला सुनाने में 10 से 28 वर्ष लग गए। शेखावत ने कहा कि वर्तमान में न्यायाधिकरण के आदेश पारित करने के संबंध में कोई समय सीमा तय नहीं है। मगर, नया कानून

बनने पर निश्चित समय सीमा के भीतर

विवादों का निपटारा होगा।

DIGICONTENT LIMITED

(formerly HT Digital Ventures Limited) CIN: L74999DL2017PLC322147

Registered Office: Hindustan Times House (2nd Floor), 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India Tel: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445 Email: investor@digicontent.co.in Website: www.digicontent.co.in

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019

(INR in Lakhs except earnings per share data)

		•		,
Particulars	Three Months Ended Year			Year Ended
	30.06.2019 Un-audited	31.03.2019 Un-audited	30.06.2018 Un-audited	31.03.2019 Audited*
Total Income from Operations	6,296	6,634	6,419	26,797
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(975)	(795)	(548)	(1,653)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(975)	(795)	(548)	(1,653)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(924)	(566)	(390)	(1,177)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	(917)	(558)	(382)	(1,145)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)	1,164	1,164	1,164	1,164
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the audited balance sheet				5,325
Earnings/(Loss) per share from continuing operations (of INR 2/- each)*	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised	
(a) Basic	(1.59)	(0.97)	(0.67)	(2.02)
(b) Diluted	(1.50)	(0.07)	(0.67)	(0.00)

*Refer Note -1

Pursuant to a Scheme of Arrangement (Demerger) between Digicontent Limited (the Company) and HT Media Limited (HTML) and their respective creditors and shareholders (Scheme), the Entertainment & Digital Innovation Business of HTML along with its related assets and liabilities, and the related strategic investment in HT Digital Streams Limited (HTDSL), has been transferred to the Company upon sanction of Scheme by the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench vide order dated 7 March, 2019 (certified copy received by the Company on 27 March, 2019) ("the order"). Certified copy of the order was filed with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana on April 05, 2019. Accordingly, the Scheme has been given effect from March 31, 2018 (closing business hours) i.e. Appointed Date.

Pursuant to aforesaid Scheme, HTML has transferred its entire stake in HTDSL (i.e. 57.17%) to the Company, by which HTDSL has become a wholly-owned subsidiary of the Company. The Consolidated results for year ended March 31, 2019 were prepared for filing information memorandum

The Company issued and allotted its 5,81,87,078 equity shares of face value of Rs. 2/- each on 12th April, 2019 to the eligible shareholders of HTML The aforesaid equity shares were admitted for trading and listed on the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited on 18th June, 2019. These equity shares have also been considered for the purpose of calculation of earnings per share The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing

- Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.digicontent.co.in"
- The above un-audited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2019 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on July 31, 2019. The Statutory Auditors have conducted "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- and have issued an unmodified review opinion.

30.06.2019

The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time Additional Information on Standalone financial results is as follows

> IIn-audited Audited 393 463 (284)(270)(185) (487)(416)(200)(137)(360)(204)(141)

Three Months Ended

31.03.2019

बेदखल करने की प्रक्रिया शरू हो आवासों को जल्द खाली कराने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। यह विधेयक उन सरकारी आवासों के संदर्भ में है, जो

नर्ड दिल्ली। सरकारी आवास की सविधा पाने वाले अब समयावधि खत्म होने के बाद उस पर ज्यादा दिन तक कब्जा कायम नहीं रख पाएंगे। सरकार ने ऐसे आवासों को जल्द खाली कराने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं। इनके तहत नोटिस का तीन दिन के भीतर जवाब देना होगा और उसके बाद आवास से

जाएगी। इससे संबंधित संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित

सरकारी आवास खाली करने के नियम और कडे

सदन में सरकारी परिसर संशोधन विधेयक-2019 पर चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी

सांसदों व अधिकारियों को आवंटित होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी आवासों को समयावधि खत्म होने के बाद भी खाली नहीं करने के मामले सामने आते रहे हैं।

indiamart INDIAMART INTERMESH LIMITED

CIN: U74899DL1999PLC101534

Regd. Office: 1st Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subash Marg, Delhi -110002, India Phone: (+91) (11) 3027 2100, Fax: (+91) (11) 43509807, E-mail: cs@indiamart.com, Website: www.indiamart.com Extract of Statement of Audited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2019 (INR Million except per share data)

		Q.	rear ended		
	Particulars Particulars	June 30, 2019	March 31, 2019	June 30, 2018	March 31, 2019
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Income from operations	1,473	1,380	1,133	5,074
2	Net Profit / (Loss) for the period	462	337	(497)	539
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)				
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	462	337	(497)	539
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	324	282	(564)	201
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)				
5	Total comprehensive income/(Loss) for the period	314	284	(567)	194
	[comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other				
	comprehensive income (after tax)]				
6	Equity Share Capital	288	286	247	286
7	Other equity as per previous year (excluding revaluation				1,313
	reserves, if any)				
8	Basic and diluted earnings per share (for continuing and				
	discontinued operations) (In INR)				
	Basic (face value of INR 10/- each)	11.29	9.85	(26.51)	7.75
		(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	
	Diluted (face value of INR 10/- each)	11.09	9.79	(26.51)	7.61
\perp		(Not annualised)	(Not annualised)	(Not annualised)	

Place : Noida

1. The above consolidated results for the guarter ended June 30, 2019 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 31,2019. 2. The above information is an extract of the detailed format of quarterly audited consolidated financial results filed by the company with the

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly audited standalone and consolidated financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com 3. The Group has adopted Ind AS 116, effective annual reporting period beginning April 1, 2019 and applied the standard to its leases using

modified retrospective approach, with the cumulative effect of initially applying the Standard, recognised on the date of initial application (April 1, 2019). Accordingly, the Group has not restated comparative information, instead, the cumulative effect of initially applying this standard has resulted in recognising a right-of-use asset of INR 204 Million and a corresponding lease liability of INR 224 Million by adjusting retained earnings net of taxes of INR 16 Million [the impact of deferred tax created INR 9 Million] as at April 1, 2019. In the profit and loss account for the current period, the nature of expenses in respect of operating leases has changed from lease rent (in other expenses) into depreciation cost against the right-to-use asset and finance cost against interest accrued on lease liability. The impact of application of Ind AS 116 on the Consolidated Financials Results of the quarter ended June 30, 2019 are as follows:

	Rent Expense is lower by	45			
	Depreciation is higher by		(36)		
	Finance Cost is higher by		(4)		
	Profit Before tax is higher by		5		
4.	The summary of the audited standalone financial resu	d June 30, 2019 (A	are given below:- mounts in INR "Millions")		
			Quarter ended		Year ended
	Dautiaulaua	June 20, 2040	Mayab 24 2040	June 20, 2040	Mauril 24 2040

Income from operations 470 Net Profit / (Loss) before tax (487 463 Net Profit / (Loss) after tax 5. Figures for the previous periods have been regrouped/reclassified to confirm to the classification of the current period.

Date: July 31, 2019

For and on behalf of the Board of Directors Dinesh Chandra Agarwal

June 30, 2019

For and on behalf of the Board of Directors

30.06.2018

New Delhi July 31, 2019

Particulars

Revenue from Operations

Total Comprehensive Income/(Loss)

Priyavrat Bhartia

Year Ended

31.03.2019